

**MASTER CIRCULAR ON INSTRUCTIONS/NOTIFICATIONS ISSUED BY  
JUSTICE-I SECTION**

Contents	
S. No.	Particulars
1.	Revision of Salary, Allowances and Pension of High Court and Supreme Court Judges.
2.	Sanction of Dearness Allowance and Dearness Relief to sitting and retired High Court and Supreme Court Judges.
Annexure-I - Circular dated 13.04.2016 regarding addition of 10 years Bar practice to actual qualifying service of High Court Judges elevated from Bar.	
Annexure-II- Circular dated 30.01.2018 and Notification dated 27.01.2018 regarding revision of salary and pension/family pension of High Courts and Supreme Court Judges on implementation of 7 <sup>th</sup> CPC report by Central Government in respect of civil employees.	
Annexure-III- Notification dated 19.03.2018 regarding revision of furnishing allowance admissible to High Courts and Supreme Court Judges.	
Annexure-IV- Circular dated 12.04.2018 regarding revision of pension/family pension of pre-2016 retired Judges of High Courts and Supreme Court.	
Annexure-V- Notification dated 10.07.2018 regarding TA entitlements of High Courts and Supreme Court Judges.	
Annexure-VI- Notification dated 07.08.2019 regarding Special Compensatory Allowance admissible to High Court Judges.	
Annexure-VII- Notification dated 21.12.2020 regarding amendment in High Court Judges TA entitlements.	
Annexure-VIII- Letter dated 11.03.2021 regarding clarification on drawal of Composite Transfer Grant on transfer/retirement.	
Annexure-IX- Notification dated 18.03.2021 regarding revision of retiral benefits admissible to retired Chief Justices of India and retired Judges of Supreme Court.	

Annexure-X- Notification dated 04.08.2021 regarding reimbursement of telephone charges to retired Chief Justices of India and retired Judges of Supreme Court.

Annexure-XI- Circular dated 03.08.2021 regarding grant of Dearness Allowance and Dearness Relief to sitting and retired Judges of High Courts and Supreme Court.

Annexure-XII- Circular dated 03.11.2021 regarding grant of Dearness Allowance to Judges of High Courts and Supreme Court.

Annexure-XIII- Circular dated 05.11.2021 regarding grant of Dearness Relief to retired Judges of High Courts and Supreme Court.

Annexure-XIV- Circular dated 12.04.2022 regarding grant of Dearness Allowance to Judges of High Courts and Supreme Court.


Annexure-XV- Circular dated 25.04.2022 regarding grant of Dearness Relief to retired Judges of High Courts and Supreme Court.

No.L-11016/02/2014-Jus.I  
 Government of India  
 Ministry of Law and Justice  
 Department of Justice

Jaisalmer House, Mansingh Road,  
 New Delhi, the 13<sup>th</sup> April, 2016.

To

1. Accountant General,  
 All States and UT of Chandigarh.
2. Pay and Accounts Officer,  
 Supreme Court of India  
 New Delhi.
3. Pay and Accounts Officer No.XIV,  
 Government of NCT of Delhi, Fire Station Building,  
 Shanker Road, New Delhi.
4. The Directorate of Pension & Provident Fund,  
 Gujarat State, "Vima & Lekha Bhavan" Bhavan,  
 Dr. Jivraj Mehta Bhavan Complex, Sector-10/B,  
 Block No.18, Old Sachivalaya, Gandhinagar - 382 010.
5. Director, Department of Pension,  
 Government of Rajasthan, Jaipur.



Subject:- Implementation of Hon'ble Supreme Court's judgment dated 31.03.2014 in W.P.(C) No.521 of 2002 - P. Ramakrishnam Raju Vs Union of India & Others regarding grant of revised pension to Part-I Judges (elevated from the Bar) of the High Courts by adding 10 years Bar practice to actual qualifying service - Revision of pension and DCRG of Part-I Judges of the High Courts.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy each of The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2016 (13 of 2016) and Gazette Notification No.S.O.1325(E) dated 5<sup>th</sup> April, 2016 for information and necessary action.

2. Hon'ble Supreme Court vide judgment dated the 31.03.2014 in W.P. (Civil) No.521 of 2002 - P. Ramakrishnam Raju Vs. Union of India and Others had, *inter-alia*, directed that "for pensionary benefits, ten years practice as an advocate be added as qualifying service for Judges elevated from the Bar with effect from the 1<sup>st</sup> April, 2004, the date on which section 13A was inserted by the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2005 (46 of 2005)." Pursuant to this direction, a new provision Section 14A providing for added years of service to Judges appointed from the Bar i.e. Part-I Judges for pension purposes has been added in the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 vide The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2016 (13 of 2016). In terms of the

.....2/-

3. Judges appointed from the Bar are entitled to addition of a period of ten years to service for computation of pensionary benefits. The amended provision has come into retrospectively w.e.f.01.04.2004.

3. In consequence thereof, sanction of the President is hereby accorded to the revision of pension of retired Part-I Judges (elevated from the Bar), who have not earned maximum pension, prescribed under the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 from time to time, by adding a period of ten years practice as an Advocate to their service, with effect from 01.04.2004 or from the date of commencement of their pension, whichever is later. As a result of this revision, sanction of the President is also accorded to the payments on account of revised Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) within the ceilings that existed at the time of retirement of the pensioner.

4. The payments on account of revised pension and Death-cum-Retirement Gratuity as per this order, shall be subject to adjustment of payments already made in this regard.


5. Accountant General/Pay and Accounts Officer are authorized to take necessary action for revising the pension and DCRG of Part-I Judges of the High Courts w.e.f.01.04.2004 or from the later date, as the case may be, immediately. No fresh reports with regard to admissibility of revised pension and DCRG are required to be furnished to this Department for conveying fresh sanctions in this regard. However, a copy of the pension revision report may be endorsed to this Department for record.

Yours faithfully,

  
(Y.M. Pandey)  
Director  
Tel. No.23072135

Copy to:-

1. Chief Secretaries of all States, Chief Secretary of NCT of Delhi, Chief Secretary, Govt. of Puducherry, Administrator of UT of Chandigarh.
2. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. Registrar Generals of all High Courts.
4. O/o C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
5. Department of Expenditure (E-V Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
6. Department of Pension & Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
7. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.
8. Central Pension Accounting Office, M/o Finance, Trikot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
9. Reserve Bank of India, Central Accounting Branch, Mumbai - with 60 spare copies for circulation amongst the Pension Disbursing Branches of various Banks for necessary prompt action.
10. Director (NIC) - for uploading this letter and enclosures on the website of Pol.
11. Guard file.

  
Y.M. Pandey  
Director

No.L-11016/02/2014-Jus.I  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Department of Justice

Jaisalmer House, Mansingh Road,  
New Delhi, the 28<sup>th</sup> November, 2016

To

1. Accountant General,  
All States and UT of Chandigarh.
2. Pay and Accounts Officer,  
Supreme Court of India  
New Delhi.
3. Pay and Accounts Officer No.XIV,  
Government of NCT of Delhi, Fire Station Building,  
Shanker Road, New Delhi.
4. The Directorate of Pension & Provident Fund,  
Gujarat State, "Vima & Lekha Bhavan" Bhavan,  
Dr. Jivraj Mehta Bhavan Complex, Sector-10/B,  
Block No.18, Old Sachivalaya, Gandhinagar - 382 010.
5. Director, Department of Pension,  
Government of Rajasthan, Jaipur.

Sub:- Implementation of Hon'ble Supreme Court's judgment dated 31.3.2014 in W.P (C) No.521 of 2002- P. Ramakrishnam Raju vs. Union of India & others regarding grant of revised pension to Part-I Judges (elevated from the Bar) of the High Courts by adding 10 years Bar practice to actual qualifying service-Revision of pension and DCRG of Part-I Judges of the High Courts.

Sir,


I am directed to say that this Department's letter of even No. dated 14.7.2016 on the subject noted above stands withdrawn.

In continuation of this Department's letter of even number dated 13.4.2016 on the subject noted above, it is clarified that in compliance with the judgment dated 31.3.2014 of Hon'ble Supreme Court in W.P.(C) No.521 of 2002 - P. Ramakrishnam Raju vs Union of India & Others regarding grant of revised pension to Part-I High Court Judges (elevated from the Bar) of the High Courts by adding 10 years

**Contd.../**

Bar practice to actual qualifying service, the benefit of addition of ten years practice as an Advocate to the service as a Judge of High Court for the purpose of computing pension will be admissible to all Part-I High Court Judges. However, in respect of Part-I High Court Judges retired prior to 1.4.2004, this benefit is to be reckoned from 1.4.2004.

Yours faithfully,

  
28/11/16


(Y.M. Pande)

Director

Telefax#23072135

Copy to:-

1. Chief Secretaries of all States, Chief Secretary of NCT of Delhi, Chief Secretary, Govt. of Puducherry, Administrator of UT of Chandigarh.
2. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. Registrar Generals of all High Courts.
4. O/o C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
5. Department of Expenditure (E-V Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
6. Department of Pension & Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
7. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.
8. Central Pension Accounting Office, M/o Finance, Trikot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
9. Reserve Bank of India, Central Accounting Branch, Mumbai.
10. Director (NIC) - for uploading this letter and enclosures on the website of DoJ.
11. Guard file.

  
28/11/16

(Y.M. Pande)

Director

587  
6

No.L-11016/02/2014-Jus.I  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Department of Justice

Jaisalmer House, Mansingh Road,  
New Delhi, the 14<sup>th</sup> July, 2016.

To

1. Accountant General,  
All States and UT of Chandigarh.
2. Pay and Accounts Officer,  
Supreme Court of India  
New Delhi.
3. Pay and Accounts Officer No.XIV,  
Government of NCT of Delhi, Fire Station Building,  
Shanker Road, New Delhi.
4. The Directorate of Pension & Provident Fund,  
Gujarat State, "Vima&LekhaBhavan" Bhavan,  
Dr. Jivraj Mehta Bhavan Complex, Sector-10/B,  
Block No.18, Old Sachivalaya, Gandhinagar - 382 010.
5. Director, Department of Pension,  
Government of Rajasthan, Jaipur.

Sub:- Implementation of Hon'ble Supreme Court's judgment dated 31.03.2014 in W.P.(C) No.521 of 2002 - P.RamakrishnamRajuVs Union of India & Others regarding grant of revised pension to Part-I Judges (elevated from the Bar) of the High Courts by adding 10 years Bar practice to actual qualifying service - Revision of pension and DCRG of Part-I Judges of the High Courts.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even No. dated 13.4.2016 on the subject noted above and to say that Department of Justice has received requests from certain Accountants Generals/High Courts/Part-I Judges who retired prior to 1.4.2004, to clarify if the benefit of added 10 years of service would also be applicable to those part-I Judges who retired on or before 31.3.2004.




7

581

The matter was accordingly examined in consultation with Department of Legal Affairs who have advised that the benefit of 10 years of qualifying service will be admissible only to those (Part-I) Judges who retired from 1.4.2004 onwards and not to those who retired prior to that date.

Yours faithfully,



(Y.M. Pande)  
Director

Tel. No.23072135

Copy to:-

- 13/14  
157  
18/15
- 157  
10/15  
15/17
1. Chief Secretaries of all States, Chief Secretary of NCT of Delhi, Chief Secretary, Govt. of Puducherry, Administrator of UT of Chandigarh.
  2. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
  3. Registrar Generals of all High Courts.
  4. O/o C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
  5. Department of Expenditure (E-V Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
  6. Department of Pension & Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
  7. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan, New Delhi.
  8. Central Pension Accounting Office, M/o Finance, Trikot-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
  9. Reserve Bank of India, Central Accounting Branch, Mumbai.
  10. Director (NIC) - for uploading this letter and enclosures on the website of DoJ.
  11. Guard file.



(Y.M. Pande)  
Director





Do No  
3/2021

L-11017/1/2016-Jus.I  
Government of India  
Department of Justice  
...

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated 30<sup>th</sup> January, 2018.

To

1. The Accountant Generals of all States.
2. The Pay and Accounts Officer, New Delhi.
3. The Pay and Accounts Officer No. XIV,  
Government of NCT of Delhi, Fire Station  
Building, Shanker Road, New Delhi.  
The Dte. Of Pension & Provident Fund,  
Gujarat State, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,  
Old Sachivalaya, Gandhinagar.
5. The Director,  
Department of Pension,  
Government of Rajasthan, Jaipur.

SP  
1/2  
SP  
1/2  
di



Subject: - Grant of revised salary and pension/family pension to the Judges of High Courts and Supreme Court and enhanced age related quantum of pension/family pension.

Sir,

In pursuance of the amendment of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (hereinafter referred to Act, 1954) and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (hereinafter referred to Act 1958), as per the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018, salary and pension/family pension in respect of a Judge is to be revised with effect from 1.1.2016, Sumptuary Allowance is to be revised w.e.f. 22.9.2017 and House Rent Allowance (HRA) is to be revised w.e.f.1.7.2017, in accordance with the amendment provisions of the relevant Acts.

2. In consequence thereof, sanction of the President is hereby accorded to the revision, with effect from 1.1.2016, of the salary and pension/additional pension/family pension already sanctioned in respect of a Judge (includes Judges of a High Court, Chief Justice of High Courts, Judges of the Supreme Court and the Chief Justice of India), in accordance with the amended provisions of the relevant Acts. In cases where the date of retirement of the Judge is after 1.1.2016, the pension already sanctioned shall be revised with effect from the date of the retirement. Though the Amendment Act specifies the rates of

pension/additional pension/family pension in respect of the Part I and Part III Judges effective from 1.1.2016, for purpose of facilitation these are summarized below.

2.1 Revised rates of Salary and Sumptuary Allowance of Judges of the Supreme Court and the High Courts to whom the provisions of Part I of the First Schedule to the Act 1958 and Part I of the Schedule to the Act 1954 respectively apply:-

2.1.1 Chief Justice of India

Salary @ Rs.2,80,000/- per month and Sumptuary Allowance @ Rs.45,000/- per month.

2.1.2 Judges of the Supreme Court

Salary @ Rs.2,50,000/- per month and Sumptuary Allowance @ Rs.34,000/- per month.

2.1.3 (i) Chief Justice of High Courts

Salary @ Rs.2,50,000/- per month and Sumptuary Allowance @ Rs.34,000/- per month.

(ii) Judges of the High Court:

Salary @ Rs. 2,25,000/- per month and Sumptuary Allowance @ Rs. 27,000/- per month.

2.1.4 House Rent Allowance

Where a Judge does not avail himself of the use of an official residence, he may be paid every month an allowance equivalent to an amount of twenty-four per centum of the salary which shall be increased at the rate of -

- (a) Twenty-seven per centum, when Dearness Allowance crosses twenty five per centum; and
- (b) Thirty per centum, when Dearness Allowance crosses fifty per centum.

3.1 Revised rates of pension of Judges of the Supreme Court and the High Courts to whom the provisions of Part I of the First Schedule to the Act 1958 and Part I of the Schedule to the Act 1954 respectively apply:-

10

3.1.1 Judges of the Supreme Court

(i) Chief Justice of India

In addition to pension admissible as Judge/Chief Justice of High Court and Judge, Supreme Court, an additional amount of Rs.34,104/- for each completed year of service as Chief Justice of India until he has become entitled to Rs.10,34,040/- p.a. and thereafter, an additional amount of Rs. 86884/- for each completed year of service, the aggregate amount not exceeding Rs.16,80,000/-p.a.

(ii) Judges of the Supreme Court

Rs.1,21,575/- for each completed year of service rendered as Chief Justice of a High Court and as a Judge, Supreme Court in addition to 3.1.1(i) above, taken together not exceeding Rs. 15,00,000/- p.a.

3.1.2 Judges of the High Court:

(i) Chief Justice of High Court

Rs. 1,21,575/- for each completed year of service as Chief Justice, High Court in addition to 3.1.1 (i) above, both taken together not exceeding Rs. 15,00,000/- p.a.

(ii) Judges of the High Court:

Rs. 96,524/- for each completed year of service as Judge, High Court, subject to the maximum of Rs.13,50,000/- p.a.

3.2 Revised rate of special additional pension of Judges of the Supreme Court and the High Courts to whom the provisions of Part III of the First Schedule to the Act 1958 and Part III of the Schedule to the Act 1954 respectively apply:

The special additional pension payable to a Judge of the High Court/Supreme Court under Para 2 (b) of Part III of the First Schedule to the Act, 1954 / Schedule to the act, 1958, shall be calculated @ Rs.45,016/- for each completed year of service as Judge/Chief Justice of the High Court and Judge/Chief Justice of India, subject to the consolidated pension under Para 2 of Part III of the above mentioned Schedules to the Act 1954 / Act 1958 not exceeding Rs. 13,50,000/- p.a. in the case of a Judge, High Court, Rs. 15,00,000/-p.a. in the case of a Judge, Supreme Court or Chief Justice, High Court and Rs. 16,80,000/- p.a. for Chief Justice of India.

4. FAMILY PENSION:

HIGH COURT/SUPREME COURT JUDGES:

Family pension sanctioned on or after 1.1.2016 is to be revised as per the amended provisions of the Acts provided that family pension calculated under the Act, 1954/1958 shall in no case exceed the pension admissible to the Judge.

5. Gratuity:- The amount of retirement or death gratuity payable under the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 shall in no case exceed Rs.20,00,000/-.

6. Arrears:- Arrears on account of revised salaries, gratuity, pension and family pension w.e.f. 1.1.2016 shall be paid as one time lump sum payment in the current financial year (2017-18).

7. The Accountants General/Pay and Account Officers are authorized to take necessary action for revising the pension/additional pension/family pension with effect from 1<sup>st</sup> January 2016, in respect of Part-I and Part-III retired Judges, immediately. In case of any doubt, clarification may be obtained from Department of Justice, Ministry of Law and Justice.

8. No fresh reports with regard to the admissibility of revised pension/additional pension/family pension in respect of Part-I and Part-III Judges, are required to be furnished to this Department for conveying individual sanctions for the revised pension/additional pension/family pension in respect of Part-I and Part-III Judges.

Yours faithfully,

(Alok Srivastava)

Secretary to the Govt. of India  
Tel. No. 23383674

Copy to:-

- SP 1/2 → 1. The Chief Secretaries of all States, Chief Secretary of NCT of Delhi, Chief Secretary, Govt. of Puducherry, Administrator of UT of Chandigarh.
- 2. The Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi. SP 1/2
- 3. The Registrars General of all High Courts. — SP 1/2
- 3/17 1/2 → 4. PS to Hon'ble Finance Minister, North Block, New Delhi.
- 5. PS to Hon'ble MLJ/PS to Hon'ble MoS (L&J).
- 5/18 1/2 → 6. The O/o C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi. SP 1/2
- 2/17 1/2 → 7. Department of Expenditure (Implementation Cell), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
- 8. Department of Pension & Pensioners' welfare, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
- 2/18 1/2 → 9. DS(Fin.), M/o Law & Justice, Shastri Bhawan, New Delhi. — 3/17 1/3
- SP 01/2 → 10. The Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
- 11. The Reserve Bank of India, Central Accounting Branch, Mumbai- with 60 spare copies for circulation amongst the Pension Disbursing Branches of various Banks for necessary prompt action.
- 12. Guard file.

(S.C. Bamma)

Joint Secretary to the Govt. of India



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड I

PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 2018/माघ 7, 1939 (साक)  
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 2018/MAGHA 7, 1939 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

*New Delhi, the 27th January, 2018/Magha 7, 1939 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th January, 2018, and is hereby published for general information:—

### THE HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2018

No. 10 OF 2018

[25th January, 2018.]

An Act further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

#### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 2018.

Short title and commencement.

(2) Sections 2, 5, 6 and 9 shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016. Sections 3 and 7 shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2017. Sections 4 and 8 shall be deemed to have come into force on the 22nd day of September, 2017.

## CHAPTER II

AMENDMENTS OF THE HIGH COURT JUDGES (SALARIES AND  
CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1954

- Amendment of section 13A. 2. In the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (hereinafter referred to as the High Court Judges Act), in section 13A,— 28 of 1954.
- (a) in sub-section (1), for the words "ninety thousand rupees per mensem", the words "two lakh fifty thousand rupees per mensem" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the words "eighty thousand rupees per mensem", the words "two lakh twenty-five thousand rupees per mensem" shall be substituted.
- Amendment of section 22A. 3. In section 22A of the High Court Judges Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
- "(2) Where a Judge does not avail himself of the use of an official residence, he may be paid every month an allowance equivalent to an amount of twenty-four per centum of the salary which shall be increased at the rate of—
- (a) twenty-seven per centum, when Dearness Allowance crosses twenty-five per centum; and
- (b) thirty per centum, when Dearness Allowance crosses fifty per centum.
- Amendment of section 22C. 4. In the High Court Judges Act, in section 22C, for the words "fifteen thousand" and "twelve thousand", the words "thirty-four thousand" and "twenty-seven thousand" shall respectively be substituted.
- Amendment of First Schedule. 5. In the First Schedule to the High Court Judges Act,—
- (a) in Part I, in paragraph 2,—
- (A) in clause (a), for the letters and figures "Rs. 43,890", the letters and figures "Rs. 1,21,575" shall be substituted;
- (B) in clause (b), for the letters and figures "Rs. 34,350", the letters and figures "Rs. 96,524" shall be substituted;
- (C) in the proviso, for the letters and figures "Rs. 5,40,000" and "Rs. 4,80,000", the letters and figures "Rs. 15,00,000" and "Rs. 13,50,000" shall respectively be substituted;
- (b) In Part III, in paragraph 2,—
- (A) in clause (b), for the letters and figures "Rs. 16,020", the letters and figures "Rs. 45,016" shall be substituted;
- (B) in the proviso, for the letters and figures "Rs. 5,40,000" and "Rs. 4,80,000", the letters and figures "Rs. 15,00,000" and "Rs. 13,50,000" shall respectively be substituted.

## CHAPTER III

AMENDMENTS OF THE SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE)  
ACT, 1958

- Amendment of section 12A. 6. In the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (hereinafter referred to as the Supreme Court Judges Act), in section 12A,— 41 of 1958.
- (a) in sub-section (1), for the words "one lakh rupees per mensem", the words "two lakh eighty thousand rupees per mensem" shall be substituted;

14

(b) in sub-section (2), for the words "ninety thousand rupees per mensem", the words "two lakh fifty thousand rupees per mensem" shall be substituted.

7. In section 23 of the Supreme Court Judges Act, for sub-section (1A), the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 23.

"(1A) Where a Judge does not avail himself of the use of an official residence, he may be paid every month an allowance equivalent to an amount of twenty-four per centum of the salary which shall be increased at the rate of—

(a) twenty-seven per centum, when Dearness Allowance crosses twenty-five per centum; and

(b) thirty per centum, when Dearness Allowance crosses fifty per centum."

8. In section 23B of the Supreme Court Judges Act, for the words "twenty thousand" and "fifteen thousand", the words "forty-five thousand" and "thirty-four thousand" shall respectively be substituted. Amendment of section 23B.

9. In the Schedule to the Supreme Court Judges Act,— Amendment of the Schedule.

(a) in Part I,—

(i) in paragraph 2—

(A) in clause (b), for the letters and figures "Rs. 12,180", "Rs. 3,69,300", and "Rs. 31,030", the letters and figures "Rs. 34,104", "Rs. 10,34,040", and "Rs. 86,884" shall respectively be substituted;

(B) in the proviso, for the letters and figures "Rs. 6,00,000", the letters and figures "Rs. 16,80,000" shall be substituted;

(ii) in paragraph 3, in the proviso, for the letters and figures "Rs. 5,40,000", the letters and figures "Rs. 15,00,000" shall be substituted;

(b) in Part III, in paragraph 2,—

(A) in clause (b), for the letters and figures "Rs. 16,020", the letters and figures "Rs. 45,016" shall be substituted;

(B) in the proviso, for the letters and figures "Rs. 6,00,000" and "Rs. 5,40,000", the letters and figures "Rs. 16,80,000" and "Rs. 15,00,000" shall respectively be substituted.

DR. G. NARAYANA RAJU,  
Secretary to the Govt. of India.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2018/फाल्गुन 28, 1939

No. 148]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2018/PHALGUNA 28, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

सा.का.नि. 238(अ).—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधाराओं (1) और (2) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में और संशोधन करने हेतु संशुद्ध निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 4 ख में "5,00,000/-रुपए (रुपए पाँच लाख मात्र)" और "4,00,000/-रुपए (रुपए चार लाख मात्र)" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर क्रमशः "10,00,000/-रुपए (रुपए दस लाख मात्र)" और "8,00,000/-रुपए (रुपए आठ लाख मात्र)" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. एल-11016/1/2018-न्याय]

एस. सी. वर्मा, संयुक्त सचिव

घाट टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 4 अगस्त, 1959 की सा.का.नि. संख्या 935 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), पृष्ठ 1161 [गृह मंत्रालय संख्या 15.6.58-न्यायिक-1] में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. सं. 1/34/74-न्याय, दिनांक 18.12.1974

2. सा.का.नि. सं. 634 दिनांक 22.04.1976

3. सा.का.नि. सं. 854 दिनांक 1.8.1980

4. सा.का.नि. सं. 1176 (अ) दिनांक 4.11.1986



5. सा.का.नि. सं. 680 (अ) दिनांक 12.11.1991
6. सा.का.नि. सं. 698 (अ) दिनांक 25.11.1991
7. सा.का.नि. सं. 559 (अ) दिनांक 27.05.1992
8. सा.का.नि. सं. 779 (अ) दिनांक 25.09.1992
9. सा.का.नि. सं. 381 (अ) दिनांक 24.04.1993
10. सा.का.नि. सं. 444 (अ) दिनांक 10.05.1994
11. सा.का.नि. सं. 717 (अ) दिनांक 03.11.1995
12. सा.का.नि. सं. 880 (अ) दिनांक 24.12.2008

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

राज्यपालक प्रशासक  
RAVISHANKAR PRASAD  
विधि एवं न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, लोकसभालय  
Minister of Law, Justice and Electronics & IT

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

(Department of Justice)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2018.

**G.S.R. 238(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 23 read with sub-sections (1) and (2) of Section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:-

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 4B, for the letters, figures, "Rs.5,00,000/- (Rupees five lakhs only)" and "Rs. 4,00,000/- (Rupees four lakhs only)", the letters, figures, "Rs. 10,00,000/- (Rupees ten lakhs only)" and "Rs. 8,00,000/- (Rupees eight lakhs only)" shall respectively be substituted.

[F.No.L-11016/1/2018-Jus]

S.C. BARMMA, Jt. Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published *vide* notification number GSR 935, dated 4<sup>th</sup> August, 1959, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) page 1161 [Ministry of Home Affairs No.15.6.58-Judl-I] and subsequently amended by :-

1. G.S.R. No.1/34/74-Jus (1) dated 18.12.1974
2. G.S.R. No.634 dated 22.4.1976
3. G.S.R. No.854 dated 1.8.1980
4. G.S.R. No.1176 (E) dated 4.11.1986
5. G.S.R. No.680 (E) dated 12.11.1991
6. G.S.R. No.698 (E) dated 25.11.1991
7. G.S.R. No.559 (E) dated 27.5.1992
8. G.S.R. No.779 (E) dated 25.9.1992
9. G.S.R. No.381 (E) dated 24.4.1993
10. G.S.R. No.444 (E) dated 10.5.1994
11. G.S.R. No.717 (E) dated 3.11.1995
12. G.S.R. No.880 (E) dated 24.12.2008

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

सा.का.नि. 239(अ).—उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 की उपधाराओं (1) और (2) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बचाती है :—

1. (1) इन नियमों को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाए।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनमें प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2-ख में "4,00,000/-रुपए (रुपए चार लाख मात्र)" और "3,00,000/-रुपए (रुपए तीन लाख मात्र)" एवं अंकों के स्थान पर क्रमशः "8,00,000/-रुपए (रुपए आठ लाख मात्र)" और "6,00,000/-रुपए (रुपए छः लाख मात्र)" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सा.सं. एल-11016/1/2018-न्याय]

एस.सी. बर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 24 जनवरी, 1956 की सा.नि.आ. सं. 224 के तहत भारत के राजपत्र के 1956 भाग-II, खंड 3, पृष्ठ 106 में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए—

1. सा.नि.आ. सं. 707 दिनांक 28.2.1957
2. सा.का.नि. सं. 497 दिनांक 13.3.1970
3. सा.का.नि. सं. 366 (अ) दिनांक 11.7.1972
4. सा.का.नि. सं. 562 दिनांक 21.4.1979
5. सा.का.नि. सं. 1015 दिनांक 21.7.1979
6. सा.का.नि. सं. 1175 (अ) दिनांक 4.11.1986
7. सा.का.नि. सं. 299 (अ) दिनांक 18.3.1987
8. सा.का.नि. सं. 718 (अ) दिनांक 4.12.1991
9. सा.का.नि. सं. 698 (अ) दिनांक 31.7.1992
10. सा.का.नि. सं. 721 (अ) दिनांक 26.11.1993
11. सा.का.नि. सं. 558 (अ) दिनांक 29.6.1994
12. सा.का.नि. सं. 720 (अ) दिनांक 3.11.1995
13. सा.का.नि. सं. 879 (अ) दिनांक 24.12.2008

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2018

G.S.R. 239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 read with sub-sections (1) and (2) of section 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Rules, 1956, namely:-

1. (1) These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

राज्यपाल प्रसाद

RAVI SHANKAR PRASAD  
विधि एवं लोक सेवा विभाग, नई दिल्ली  
Minister of Law & Justice, Government of India  
विधि एवं लोक सेवा विभाग, नई दिल्ली  
Minister of Law & Justice, Government of India

2. In the High Court Judges Rules, 1956, in rule 2B, for the letters, figures "Rs.4,00,000/- (Rupees four lakhs only)" and "Rs.3,00,000/- (Rupees three lakhs only)", the letters, figures, "Rs.8,00,000/- (Rupees eight lakhs only)" and "Rs.6,00,000/- (Rupees six lakhs only)" shall respectively be substituted.

[F.No. L-11016/1/2018-Jus]

S. C. BARMMA, Jr. Secy.

Foot Note: The principal rules were published *vide* notification number S.R.O. 224, dated 24<sup>th</sup> January, 1956, in the Gazette of India, 1956 Part II, Section 3, page 106. Subsequently amended by:-

1. S.R.O. No.707 dated 28.2.1957
2. G.S.R. No. 497 dated 13.3.1970
3. G.S.R. No.366 (E) dated 11.7.1972
4. G.S.R. No.562 dated 21.4.1979
5. G.S.R. No.1015 dated 21.7.1979
6. G.S.R. No.1175 (E) dated 4.11.1986
7. G.S.R. No.299 (E) dated 18.3.1987
8. G.S.R. No.718 (E) dated 4.12.1991
9. G.S.R. No.698 (E) dated 31.7.1992
10. G.S.R. No.721 (E) dated 26.11.1993
11. G.S.R. No.558 (E) dated 29.6.1994
12. G.S.R. No.720 (E) dated 3.11.1995
13. G.S.R. No.879 (E) dated 24.12.2008

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

रविशंकर प्रसाद  
RAVI SHANKAR PRASAD  
विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
Minister of Law & Justice and Electronics & IT

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated 12<sup>th</sup> April, 2018.

To

1. The Accountant Generals of all States.
2. The Pay and Accounts Officer, Supreme Court of India, New Delhi.
3. The Pay and Accounts Officer No. XIV,  
Government of NCT of Delhi, Fire Station  
Building, Shanker Road, New Delhi.
4. The Dte. Of Pension & Provident Fund,  
Gujarat State, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,  
Old Sachivalaya, Gandhinagar.

Subject: - Revision of pension/family pension of pre-2016 retired Judges of High Courts and Supreme Court.

Sir,

I am directed to say that in pursuance of Government's decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the Department of Pension & Pensioners' Welfare vide its O.M. No. 38/37/2016-P&W(A)(ii) dated 4<sup>th</sup> August, 2016 (copy-enclosed) and O.M. No. 38/37/2016-P&PW(A) dated 12<sup>th</sup> May, 2017 (copy enclosed) have issued orders for the revision of pension/family pension of all the pre 2016 Central Government pensioners/family pensioners, All India Service pensioners including former members of Indian Civil Service (ICS), with effect from 1.1.2016. These orders do not apply to retired High Court and Supreme Court Judges.

2. In so far as the High Court and Supreme Court Judges who retired prior to 1.1.2016 are concerned, it has been decided that their pension/family pension will be revised in the manner indicated in the following paragraphs.

3. The Judges who are elevated from the Bar (Part-I) are allowed pension for each completed year of service as Judge as per the rates laid down under Part-I of First Schedule to the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954/Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 as amended vide Notification dated 27.01.2018. The pension of all Part-I Judges retired prior to 1.1.2016, will be revised as per the rates laid down under Part-I of the first schedule to the said Acts irrespective of their date of retirement.

4. The existing pre-2016 family pensioners of High Courts/Supreme Court Judges (Part-I) shall be entitled to revised family pension with effect from 01.01.2016 in terms of the D/o Pension and Pensioners' Welfare OM No. 38/37/2016-P&PW (A) (ii) dated 04.08.2016 and 12.05.2017. However, in accordance with proviso to Section 16 A of Supreme Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1958 and Section 17A of High Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1954, the family pension shall not exceed pension payable to a Judge.


Contd.../

5. Revision of pension/family pension of Part-III Judges (those who were elevated from earlier pensionable posts under the State): The pension/family pension of Part-III Judges of High Courts and the Supreme Court comprises two parts i.e. pension under Para 2 (a) and 2 (b) of Part-III of the High Court Judges (Salaries & Conditions of Service) Act, 1954 and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of service) Act, 1958 respectively. The pension under Para 2 (a) is that pension which is sanctioned under the ordinary rules/orders/notifications applicable to the service, to which the concerned Judge belonged prior to his elevation to High Court. As such, the pension/family pension under Para 2 (a) of such Judges of High Courts/Supreme Court, retired prior to 1.1.2016, may accordingly be revised in terms of the D/o Pension & Pensioners' Welfare O.M. dated 4<sup>th</sup> August, 2016 & 12<sup>th</sup> May, 2017 with effect from 1.1.2016, as in the case of Central Government employees.

6. The revision mentioned in Para 5 above, would be subject to adoption of the D/o Pension & Pensioners' Welfare O.M. 38/37/2016-P&W(A) (ii) dated 4<sup>th</sup> August, 2016 and 12.5.2017 by the respective State Government to grant the benefit of increased pension on similar lines to their employees including members of State Higher Judicial Service. In this regard the directions of the Supreme Court of India in C.M.P. No. 18044 of 1988, in the matter of Justice M.L. Jain Vs. UOI, circulated to all State Governments by this Department vide its circular letter No. 27/20/1988-Jus. dated 26.6.1989 may please be referred to.

7. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide the Department of Expenditure's I.D.No. 16(1)/E-V/2018 dated 11.04.2018.

Yours faithfully,



(D.C. Pathak)

Under Secretary to the Govt. of India  
Tel. No. 23072148

Copy to:-

- 1 The Chief Secretaries of all States, Chief Secretary of NCT of Delhi, Chief Secretary, Govt. of Puducherry, Administrator of UT of Chandigarh.
- 2 The Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. The Registrars General of all High Courts.
4. The Registrar, Central Administrative Tribunal, 61/35, Copernicus Marg, New Delhi.
5. The O/o C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. The Controller of Accounts, 7<sup>th</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
7. Department of Expenditure (Implementation Cell), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
8. Department of Pension & Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
9. DS (Fin.), M/o Law & Justice, Shastri Bhavan, New Delhi.
10. Guard File.

(D.C. Pathak)

Under Secretary to the Govt. of India



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

रविशंकर प्रसाद  
RAVI SHANKAR PRASAD  
विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना, आधुनिकी एवं  
Minister of Law & Justice and Electronics & IT

सं. 469]  
No. 469]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21 1940  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

स.क्र.नि. 630(अ).—केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 41), की धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (पात्रा भत्ता) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (पात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2018 कहा जाए।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (पात्रा भत्ता) नियम, 1959 में, नियम 5 में; उप-नियम (1) में, खंड (अ) में:-

(i) "रुपए 5000/-" से शुरू होने वाले अक्षरों और आंकड़ों और "रुपए 500/-" से समाप्त होने वाले अक्षरों और आंकड़ों वाले भाग को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"शहर के भीतर सरकारी कार्य के अनुरूप बाजा करने के लिए वास्तविक ध्येय के अनुसार होटल या गेस्ट हाउस आवास, परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए प्रति दिन रुपए 7500/- और छाछ बिलों के लिए रुपए 1200/- से अधिक नहीं";

(ii) तीसरे परंतुक में:-

(क) खंड (i) में "रुपए 5000/-" से शुरू होने वाले अक्षरों और आंकड़ों और "रुपए 500/-" से समाप्त होने वाले अक्षरों और आंकड़ों वाले भाग को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

\* शहर के भीतर सरकारी कार्य के अनुरूप यात्रा करने के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार होटल या गैस्ट हाउस अवास, परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए प्रति दिन रुपये 7500/- और छात्र बिलों के लिए रुपये 1200/- से अधिक नहीं”;

(ब) खंड (ii) में “रुपये 5000/-” वाले अक्षरों और अंकनों को “रुपये 7500/-” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[क्र. सं. एल-11017/1/2018-न्याय.]

सुचना टायपेस्टे, संयुक्त सचिव

पाठ टिप्पणी : मुख्य नियम, भाग-II, खंड-3(i), सूच-1054 में भारत के राजपत्र दिनांक 25 जुलाई, 1959 में दिनांक 14 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या-844 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदन्तर उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया।

1. सा.का.नि. 1881, दिनांक 3.10.1968
2. सा.का.नि. 2010 दिनांक 15.12.1970
3. सा.का.नि. 263(अ), दिनांक 27.4.1972
4. सा.का.नि. 579, दिनांक 30.5.1974
5. सा.का.नि. 1365, दिनांक 18.12.1974
6. सा.का.नि. 343(अ), दिनांक 12.5.1976
7. सा.का.नि. 990, दिनांक 28.7.1978
8. सा.का.नि. 871, दिनांक 5.8.1980
9. सा.का.नि. 1043, दिनांक 23.9.1980
10. सा.का.नि. 394, दिनांक 4.4.1981
11. सा.का.नि. 899, दिनांक 28.9.1985
12. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 7.3.1986
13. सा.का.नि. 175, दिनांक 8.3.1986
14. सा.का.नि. 1187(अ), दिनांक 6.11.1986
15. सा.का.नि. 638, दिनांक 27.7.1988
16. सा.का.नि. 915 (अ), दिनांक 6.9.1988
17. सा.का.नि. 979(अ), दिनांक 18.12.1990
18. सा.का.नि. 716 (अ), दिनांक 4.12.1991
19. सा.का.नि. 378(अ), दिनांक 16.4.1993
20. सा.का.नि. 715(अ), दिनांक 3.11.1995
21. सा.का.नि. 150(अ), दिनांक 24.2.1999
22. सा.का.नि. 331(अ), दिनांक 15.4.2011.

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

राजशंकर प्रसाद  
RAJ SHANKAR PRASAD  
विधि एवं न्याय विभाग, संयुक्त सचिव, भारतीय न्याय  
Minister of Law & Justice and Electronics & IT

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, namely:-

"शहर के भीतर सरकारी कार्य के अनुरूप यात्रा करने के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार होटल या गेस्ट हाउस आवास, परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए प्रति दिन रुपये 7500/- और साध बिलों के लिए रुपये 1200/- से अधिक नहीं";

(ब) चंद (अ) में "रुपये 5000/-" वाले अक्षरों और आंकड़ों को "रुपये 7500/-" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सा. सं. एन-11017/1/2018-न्याय.]

सुपना तायरोटे, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम, भाग-II, खंड-3(1), पृष्ठ-1054 में भारत के राजपत्र दिनांक 25 जुलाई, 1959 में दिनांक 14 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या-844 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदन्तर उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया।

1. सा.का.नि. 1881, दिनांक 3.10.1958
2. सा.का.नि. 2010 दिनांक 15.12.1970
3. सा.का.नि. 263(अ), दिनांक 27.4.1972
4. सा.का.नि. 579, दिनांक 30.5.1974
5. सा.का.नि. 1365, दिनांक 18.12.1974
6. सा.का.नि. 343(अ), दिनांक 12.5.1978
7. सा.का.नि. 990, दिनांक 28.7.1978
8. सा.का.नि. 871, दिनांक 5.8.1980
9. सा.का.नि. 1043, दिनांक 23.9.1980
10. सा.का.नि. 394, दिनांक 4.4.1981
11. सा.का.नि. 899, दिनांक 28.9.1985
12. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 7.3.1986
13. सा.का.नि. 175, दिनांक 8.3.1986
14. सा.का.नि. 1187(अ), दिनांक 6.11.1988
15. सा.का.नि. 636, दिनांक 27.7.1988
16. सा.का.नि. 915 (अ), दिनांक 6.9.1988
17. सा.का.नि. 979(अ), दिनांक 18.12.1990
18. सा.का.नि. 716 (अ), दिनांक 4.12.1991
19. सा.का.नि. 378(अ), दिनांक 16.4.1993
20. सा.का.नि. 715(अ), दिनांक 3.11.1995
21. सा.का.नि. 150(अ), दिनांक 24.2.1999
22. सा.का.नि. 331(अ), दिनांक 15.4.2011.

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

राजशंकर प्रसाद  
RAJ SHANKAR PRASAD  
विधि एवं न्याय-संगणकीय एवं सूचना, संचालनी एवं  
Minister of Law & Justice and Electronics & IT

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, namely:-



195  
3  
21

- (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, in rule 5; in sub-rule (1), in clause (f);
- (i) for the portion beginning with the letters and figures "Rs. 5000/-" and ending with the letters and figures "Rs. 500/-" the following shall be substituted, namely:-
- "Rs. 7500/- per day for hotel or guest house accommodation, transport charges (AC taxi) as per actual expenditure commensurate with official engagements for travel within the city and food bills not exceeding Rs. 1200/-";
- (ii) In the third proviso;-
- (a) in clause (i), for the portion beginning with the letters and figures "Rs. 5000/-" and ending with the letters and figures "Rs. 500/-", the following shall be substituted, namely:-
- "Rs. 7500/- per day for hotel or guest house accommodation, transport charges (AC taxi) as per actual expenditure commensurate with official engagement for travel within the city and food bills not exceeding Rs. 1200/-";
- (b) In clause (ii), for the letters and figures "Rs. 5000/-" the letters and figures "Rs. 7500/-" shall be substituted.

[F. No. L-11017/1/2018-Jus.I]

SUSHMA TAISHETE, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 844, dated 14<sup>th</sup> July, 1959 in the Gazette of India dated 25<sup>th</sup> July, 1959, in Part II, Section 3(i), page 1054 and subsequently amended by:-

1. G.S.R. 1881, dated 3.10.1968
2. G.S.R. 2010 dated 15.12.1970
3. G.S.R. 263(E), dated 27.4.1972
4. G.S.R. 579, dated 30.5.1974
5. G.S.R. 1365, dated 18.12.1974
6. G.S.R. 343(E), dated 12.5.1976
7. G.S.R. 990, dated 28.7.1978
8. G.S.R. 871, dated 5.8.1980
9. G.S.R. 1043, dated 23.9.1980
10. G.S.R. 394, dated 4.4.1981
11. G.S.R. 899, dated 28.9.1985
12. G.S.R. 484(E), dated 7.3.1986
13. G.S.R. 175, dated 8.3.1986
14. G.S.R. 1187(E), dated 6.11.1986
15. G.S.R. 636, dated 27.7.1988
16. G.S.R. 915 (E), dated 6.9.1988
17. G.S.R. 979(E), dated 18.12.1990
18. G.S.R. 716 (E), dated 4.12.1991
19. G.S.R. 378(E), dated 16.4.1993
20. G.S.R. 715(E), dated 3.11.1995
21. G.S.R. 150(E), dated 24.2.1999
22. G.S.R. 331(E), dated 15.4.2011.

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

RAVI SHANKAR PRASAD  
Minister of Law & Justice and Electronics & IT

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 631(ब).—केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 (1954 का 28), के धारा 24 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वाजा भत्ता) नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वाजा भत्ता) संशोधन नियम, 2018 कहा जाए।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वाजा भत्ता) नियम, 1956 में, नियम 2 में: उप-नियम (1) में, खंड (क) में: -

(i) "रुपए 5000/-" से शुरू होने वाले अक्षरों और आंकड़ों और "रुपए 500/-" से समाप्त होने वाले अक्षरों और आंकड़ों वाले भाग को निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"शहर के भीतर सरकारी कार्य के अनुरूप यात्रा करने के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार होटल या गेस्ट हाउस आवास, परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए प्रति दिन रुपए 7500/- और बाघ बिलों के लिए रुपए 1200/- से अधिक नहीं";

(ii) दूसरे परंतुक में: -

(क) खंड (i) में "रुपए 5000/-" से शुरू होने वाले अक्षरों और आंकड़ों और "रुपए 500/-" से समाप्त होने वाले अक्षरों और आंकड़ों वाले भाग को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"शहर के भीतर सरकारी कार्य के अनुरूप यात्रा करने के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार होटल या गेस्ट हाउस आवास, परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए प्रति दिन रुपए 7500/- और बाघ बिलों के लिए रुपए 1200/- से अधिक नहीं";

(ख) खंड (iii) में "रुपए 5000/-" वाले अक्षरों और आंकड़ों को "रुपए 7500/-" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[क्र. सं. एन-11017/1/2018-न्याय.]

सुचना सचिव

पाठ टिप्पणी: मुख्य नियम, भाग-II, खंड-3, पृष्ठ-1782 में भारत के राजपत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 1956 में दिनांक 23 अक्टूबर, 1956 की अधिसूचना संख्या-एसआरओ 2401 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनुसार उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था: -

1. सा.का.नि. 708, दिनांक 28.2.1957
2. सा.का.नि. 48, दिनांक 9.1.1959
3. सा.का.नि. 730, दिनांक 4.5.1965
4. सा.का.नि. 943, दिनांक 8.6.1966
5. सा.का.नि. 1768, दिनांक 19.9.1968
6. सा.का.नि. 891, दिनांक 19.3.1969
7. सा.का.नि. 784, दिनांक 2.5.1970
8. सा.का.नि. 1539, दिनांक 4.4.1971
9. सा.का.नि. 841, दिनांक 21.6.1972
10. सा.का.नि. 344 (अ), दिनांक 12.5.1976
11. सा.का.नि. 991, दिनांक 28.7.1978
12. सा.का.नि. 502, दिनांक 23.3.1979
13. सा.का.नि. 870, दिनांक 23.9.1979

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.

सा.का.नि. 631(ब).—केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 (1954 का 28), द्वारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए अधिसूचित प्रतिष्ठित एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

Authenticated Copy

श्री अशोक कुमार प्रसाद  
Minister of Law  
Government of India

1. (1) इन नियमों को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2018 कहा जाए।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 में, नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) में:-  
(i) "रुपए 5000/-" से शुरू होने वाले अक्षरों और आंकड़ों और "रुपए 500/-" से समाप्त होने वाले अक्षरों और आंकड़ों वाले भाग को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"शहर के भीतर सरकारी कार्य के अनुरूप यात्रा करने के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार होटल या गेस्ट हाउस आवास, परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए प्रति दिन रुपए 7500/- और छाद्य बिलों के लिए रुपए 1200/- से अधिक नहीं";

(ii) दूसरे परंतुक में:-

(क) खंड (i) में "रुपए 5000/-" से शुरू होने वाले अक्षरों और आंकड़ों और "रुपए 500/-" से समाप्त होने वाले अक्षरों और आंकड़ों वाले भाग को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"शहर के भीतर सरकारी कार्य के अनुरूप यात्रा करने के लिए वास्तविक व्यय के अनुसार होटल या गेस्ट हाउस आवास, परिवहन शुल्क (एसी टैक्सी) के लिए प्रति दिन रुपए 7500/- और छाद्य बिलों के लिए रुपए 1200/- से अधिक नहीं";

(ख) खंड (iii) में "रुपए 5000/-" वाले अक्षरों और आंकड़ों को "रुपए 7500/-" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सा. सं. एन-11017/1/2018-न्याय.]  
सुचमा टायरीटे, संयुक्त सचिव

पाठ टिप्पणी: मुख्य नियम, भाग-II, खंड-3, पृष्ठ-1762 में भारत के राजपत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 1956 में दिनांक 23 अक्टूबर, 1956 की अधिसूचना संख्या-एसकारओ 2401 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इदन्तर उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था:-

1. सा.का.नि. 708, दिनांक 28.2.1957
2. सा.का.नि. 48, दिनांक 9.1.1959
3. सा.का.नि. 730, दिनांक 4.5.1965
4. सा.का.नि. 943, दिनांक 8.6.1966
5. सा.का.नि. 1768, दिनांक 19.9.1968
6. सा.का.नि. 891, दिनांक 19.3.1969
7. सा.का.नि. 784, दिनांक 2.5.1970
8. सा.का.नि. 1539, दिनांक 4.4.1971
9. सा.का.नि. 841, दिनांक 21.6.1972
10. सा.का.नि. 344 (अ), दिनांक 12.5.1976
11. सा.का.नि. 991, दिनांक 28.7.1978
12. सा.का.नि. 502, दिनांक 23.3.1979
13. सा.का.नि. 870, दिनांक 23.9.1979

- सा.का.नि. 1044, दिनांक 5.8.1980
- सा.का.नि. 260, दिनांक 10.3.1981
- सा.का.नि. 532, दिनांक 27.5.1982
- सा.का.नि. 887, दिनांक 15.10.1982
- सा.का.नि. 1007, दिनांक 14.10.1985
- सा.का.नि. 1194 (अ), दिनांक 7.11.1986
- सा.का.नि. 1295 (अ), दिनांक 18.12.1986
- सा.का.नि. 635, दिनांक 27.7.1988
- सा.का.नि. 914 (अ), दिनांक 9.9.1988
- सा.का.नि. 426, दिनांक 11.7.1990
- सा.का.नि. 717 (अ), दिनांक 4.12.1991
- सा.का.नि. 117, दिनांक 3.3.1992
- सा.का.नि. 385 (अ), दिनांक 10.5.1995
- सा.का.नि. 719 (अ), दिनांक 3.11.1995
- सा.का.नि. 268 (अ), दिनांक 3.7.1996
- सा.का.नि. 151 (अ), दिनांक 24.2.1999
- सा.का.नि. 330 (अ), दिनांक 15.4.2011.

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

रविशंकर प्रसाद  
RAVISHANKAR PRASAD  
विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
Minister of Law & Justice and Electronics & IT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018.

G.S.R. 631(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, namely:-

1. (1) These rules may be called the High Court Judges Travelling Allowance Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, in rule 2; in sub-rule (1), in clause (c);-
  - (i) for the portion beginning with the letters and figures "Rs. 5000/-" and ending with the letters and figures "Rs.500/-" the following shall be substituted, namely:-
 

"Rs.7500/- per day for hotel or guest house accommodation, transport charges (AC taxi) as per actual expenditure commensurate with official engagements for travel within the city and food bills not exceeding Rs.1200/-".
  - (ii) In the second proviso;-
    - (a) In clause (i), for the portion beginning with letter and figures "Rs.5000/-" and ending with the letters and figures "Rs.500/-", the following shall be substituted, namely:-
 

"Rs.7500/- per day for hotel or guest house accommodation, transport charges (AC taxi) as per actual expenditure commensurate with official engagement for travel within the city and food bills not exceeding Rs.1200/-".
    - (b) In clause (iii), for the letters and figures "Rs.5000/-" the letters and figures "Rs.7500/-" shall be substituted.

[F. No. L-11017/1/2018-Jus.I]

SUSHMA TAISHETE, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal rules were published vide Notification number S.R.O. 2401, dated 23<sup>rd</sup> October 1956 in the Gazette of India dated 27<sup>th</sup> October, 1956, in Part II, Section 3, page 1762 and subsequently amended by:-

1. G.S.R. 708, dated 28.2.1957
2. G.S.R. 48, dated 9.1.1959
3. G.S.R. 730, dated 4.5.1965
4. G.S.R. 943, dated 8.6.1966
5. G.S.R. 1768, dated 19.9.1968
6. G.S.R. 891, dated 19.3.1969
7. G.S.R. 784, dated 2.5.1970
8. G.S.R. 1539, dated 4.4.1971
9. G.S.R. 841, dated 21.6.1972
10. G.S.R. 344 (E), dated 12.5.1976
11. G.S.R. 991, dated 28.7.1978
12. G.S.R. 502, dated 23.3.1979
13. G.S.R. 870, dated 23.9.1979
14. G.S.R. 1044, dated 5.8.1980
15. G.S.R. 260, dated 10.3.1981
16. G.S.R. 532, dated 27.5.1982
17. G.S.R. 887, dated 15.10.1982
18. G.S.R. 1007, dated 14.10.1985
19. G.S.R. 1194(E), dated 7.11.1986
20. G.S.R. 1295 (E), dated 18.12.1986
21. G.S.R. 635, dated 27.7.1988
22. G.S.R. 914(E), dated 9.9.1988
23. G.S.R. 426, dated 11.7.1990
24. G.S.R. 717 (E), dated 4.12.1991
25. G.S.R. 117, dated 3.3.1992
26. G.S.R. 385(E), dated 10.5.1995
27. G.S.R. 719(E), dated 3.11.1995
28. G.S.R. 268(E), dated 3.7.1996
29. G.S.R. 151(E), dated 24.2.1999
30. G.S.R. 330(E), dated 15.4.2011.

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

RAVI SHANKAR PRASAD  
Jai Shree and Electronics & IT

Foot Note: The Principal rules were published vide Notification number S.R.O. 2401, dated 23<sup>rd</sup> October 1956 in the Gazette of India dated 27<sup>th</sup> October, 1956, in Part II, Section 3, page 1762 and subsequently amended by:-

1. G.S.R. 708, dated 28.2.1957
2. G.S.R. 48, dated 9.1.1959
3. G.S.R. 730, dated 4.5.1965
4. G.S.R. 943, dated 8.6.1966
5. G.S.R. 1768, dated 19.9.1968
6. G.S.R. 891, dated 19.3.1969
7. G.S.R. 784, dated 2.5.1970
8. G.S.R. 1539, dated 4.4.1971
9. G.S.R. 841, dated 21.6.1972
10. G.S.R. 344 (E), dated 12.5.1976
11. G.S.R. 991, dated 28.7.1978
12. G.S.R. 502, dated 23.3.1979
13. G.S.R. 870, dated 23.9.1979
14. G.S.R. 1044, dated 5.8.1980
15. G.S.R. 260, dated 10.3.1981
16. G.S.R. 532, dated 27.5.1982
17. G.S.R. 887, dated 15.10.1982
18. G.S.R. 1007, dated 14.10.1985
19. G.S.R. 1194(E), dated 7.11.1986
20. G.S.R. 1295 (E), dated 18.12.1986
21. G.S.R. 635, dated 27.7.1988
22. G.S.R. 914(E), dated 9.9.1988
23. G.S.R. 426, dated 11.7.1990
24. G.S.R. 717 (E), dated 4.12.1991
25. G.S.R. 117, dated 3.3.1992
26. G.S.R. 385(E), dated 10.5.1995
27. G.S.R. 719(E), dated 3.11.1995
28. G.S.R. 268(E), dated 3.7.1996
29. G.S.R. 151(E), dated 24.2.1999
30. G.S.R. 330(E), dated 15.4.2011.

अधिकृत प्रतिलिपि  
Authenticated Copy

राजिंदर प्रसाद  
RAJINDER PRASAD  
विधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
Ministry of Information and Electronics & IT



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2019/श्रावण 17, 1941

No. 456]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2019/SHRAVANA 17, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 585(अ)—केन्द्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 जुलाई, 1982 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2 के अंतिम परंतुक में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण.- इस परंतुक के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष प्रतिपूरक (दूरदराज क्षेत्र) भत्ते को 1 जुलाई, 1982 से अनुज्ञेय समझा जाएगा।"

[फा. सं.एल-11025/1/2013-न्या.]

सुषमा तापसेटे, संयुक्त सचिव

बाह टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में पृष्ठ 106 [गृह मंत्रालय सं.11/39/54-न्या.] में अधिमूचना संख्यांक का.नि.आ. 224 तारीख 24 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

1. का.नि.आ. सं. 707 तारीख 28.2.1957
2. सा.का.नि. सं. 497 तारीख 13.3.1970
3. सा.का.नि. सं. 3365(अ) तारीख 11.7.1972
4. सा.का.नि. सं. 562 तारीख 21.4.1979
5. सा.का.नि. सं. 1015 तारीख 11.7.1979
6. सा.का.नि. सं. 1175 (अ) तारीख 4.11.1986
7. सा.का.नि. सं. 299 (अ) तारीख 4.12.1991
8. सा.का.नि. सं. 718 (अ) तारीख 4.12.1991
9. सा.का.नि. सं. 698 (अ) तारीख 4.12.1994
10. सा.का.नि. सं. 588 (अ) तारीख 4.12.1994
11. सा.का.नि. सं. 720 (अ) तारीख 3.11.1995
12. सा.का.नि. सं. 394 (अ) तारीख 1.7.2004।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**  
(Department of Justice)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2019

G.S.R. 565(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 read with section 24, of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Rules, 1956, namely:-

- 1 (1) Short title and Commencement- These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 2019.  
(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st July, 1982.
- 2 In the High Court Judges Rules, 1956, in rule 2, in the last proviso the following Explanations shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purpose of this proviso, it is hereby clarified that Special Compensatory (Remote Locality) Allowance shall be deemed to be admissible from 1st July, 1982".

[F.No. L-11025/1/2013-Jus.]  
SUSHMA TAISHETE, Jt. Secy.

Foot note:—Principal Rules were published in Gazette of India, Part II, Section 3 on page 106 [Home Ministry, No. 11/39/54-Jud] vide Notification No. S.R.O.224 dated 24th January, 1956 and subsequently amended by the following:

1. No. S.R.O. 707 dated 28.2.1957
2. No. G.S.R. 497 dated 13.3.1970
3. No. G.S.R. 3365(E) dated 11.7.1972
4. No. G.S.R. 562 dated 21.4.1979
5. No. G.S.R. 1015 dated 11.7.1979
6. No. G.S.R. 1175 (E) dated 4.11.1986
7. No. G.S.R. 299 (E) dated 4.12.1991
8. No. G.S.R. 718 (E) dated 4.12.1991
9. No. G.S.R. 698 (E) dated 4.12.1994
10. No. G.S.R. 588 (E) dated 4.12.1994
11. No. G.S.R. 720 (E) dated 3.11.1995
12. No. G.S.R. 394 (E) dated 1.7.2004.



L-11016/1/2020-Jus.I  
Government of India  
Department of Justice  
\*\*\*

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated 20<sup>th</sup> January, 2021

To


1. The Secretary General,  
Supreme Court of India, New Delhi
2. The Registrar Generals, All High Courts

Subject: - Amendment in Supreme Court Judge Travelling Allowance Rules,  
1959 and High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956.  
\*\*\*\*

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the Gazette Notification dated 21<sup>st</sup> December, 2020 amending the Supreme Court Judges Travelling Allowance Rules, 1959 and High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, for information and necessary action.

Yours faithfully,



(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India  
Tele- 23382570

Copy to :-

1. Chief Secretaries, All States.
2. Accountant Generals, All States.
3. Department of Expenditure, Ministry of Finance (Smt. Nirmala Dev, Director), North Block, New Delhi.
4. Guard file
5. NIC, DoJ for uploading on website.



(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012021-224295  
CG-DL-E-09012021-224295

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]  
No. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/पौष 18, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय  
(न्याय विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 13(अ).—केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ड) के दूसरे परंतुक में खंड (iv) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एल-11016/1/2020-न्याय-1]

नीरज कुमार गवामी, संयुक्त सचिव

पाठ टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 (i), पृष्ठ 1762 तारीख 27 अक्टूबर, 1956 में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 2401, तारीख 23 अक्टूबर, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

40

1. सा.का.नि. 708, तारीख 28.2.1957
2. सा.का.नि. 48, तारीख 9.1.1959
3. सा.का.नि. 730 तारीख 4.5.1965
4. सा.का.नि. 943 तारीख 8.6.1966
5. सा.का.नि. 1768 तारीख 19.9.1968
6. सा.का.नि. 891 तारीख 19.3.1969
7. सा.का.नि. 784 तारीख 2.5.1970
8. सा.का.नि. 1539, तारीख 4.4.1971
9. सा.का.नि. 841, तारीख 21.6.1972
10. सा.का.नि. 344 (अ), तारीख 12.5.1976
11. सा.का.नि. 991, तारीख 28.7.1978
12. सा.का.नि. 502, तारीख 23.3.1979
13. सा.का.नि. 870, तारीख 23.9.1979
14. सा.का.नि. 1044, तारीख 5.8.1980
15. सा.का.नि. 260, तारीख 10.3.1981
16. सा.का.नि. 532, तारीख 27.5.1982
17. सा.का.नि. 887, तारीख 15.10.1982
18. सा.का.नि. 1007, तारीख 14.10.1985
19. सा.का.नि. 1194 (अ) तारीख 7.11.1986
20. सा.का.नि. 1295 (अ), तारीख 18.12.1986
21. सा.का.नि. 635, तारीख 27.7.1988
22. सा.का.नि. 914 (अ), तारीख 9.9.1988
23. सा.का.नि. 426, तारीख 11.7.1990
24. सा.का.नि. 717 (अ), तारीख 4.12.1991
25. सा.का.नि. 117, तारीख 3.3.1992
26. सा.का.नि. 385 (अ), तारीख 10.5.1995
27. सा.का.नि. 719 (अ), तारीख 3.11.1995
28. सा.का.नि. 268 (अ), तारीख 3.7.1996
29. सा.का.नि. 151 (अ), तारीख 24.2.1999
30. सा.का.नि. 330 (अ), तारीख 15.4.2011
31. सा.का.नि. 631 (अ), तारीख 12.07.2018

(41)

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2020

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, namely:-

1. (1) These rules may be called the High Court Judges Travelling Allowance Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the High Court Judges Travelling Allowance Rules, 1956, in rule 2, in sub-rule (1), in clause (e), in the second proviso, clause (iv) shall be omitted.

[F.No. L-11016/1/2020-Jus-I]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jr. Secy.

**Foot Note:** The principal rules were published vide notification number S.R.O. 2401, dated the 23<sup>rd</sup> October, 1956 in the Gazette of India, dated the 27<sup>th</sup> October, 1956, in Part II, Section 3, page 1762 and subsequently amended by:—

1. G.S.R. 708, dated 28.2.1957
2. G.S.R. 48, dated 9.1.1959
3. G.S.R. 730, dated 4.5.1965
4. G.S.R. 943, dated 8.6.1966
5. G.S.R. 1768, dated 19.9.1968
6. G.S.R. 891, dated 19.3.1969
7. G.S.R. 784, dated 2.5.1970
8. G.S.R. 1539, dated 4.4.1971
9. G.S.R. 841, dated 21.6.1972
10. G.S.R. 344 (E), dated 12.5.1976
11. G.S.R. 991, dated 28.7.1978
12. G.S.R. 502, dated 23.3.1979
13. G.S.R. 870, dated 23.9.1979
14. G.S.R. 1044, dated 5.8.1980
15. G.S.R. 260, dated 10.3.1981
16. G.S.R. 532, dated 27.5.1982
17. G.S.R. 887, dated 15.10.1982
18. G.S.R. 1007, dated 14.10.1985
19. G.S.R. 1194 (E), dated 7.11.1986
20. G.S.R. 1295 (E), dated 18.12.1986
21. G.S.R. 635, dated 27.7.1988
22. G.S.R. 914 (E), dated 9.9.1988
23. G.S.R. 426, dated 11.7.1990
24. G.S.R. 717 (E), dated 4.12.1991
25. G.S.R. 117, dated 3.3.1992
26. G.S.R. 385 (E), dated 10.5.1995
27. G.S.R. 719 (E), dated 3.11.1995
28. G.S.R. 268 (E), dated 3.7.1996
29. G.S.R. 151 (E), dated 24.2.1999
30. G.S.R. 330 (E), dated 15.4.2011
31. G.S.R. 631 (E), dated 12.7.2018

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 14(अ).—केंद्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (घ) के तीसरे परंतुक के खंड (iii) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. एन-11016/1/2020-न्याय-1]

नीरज कुमार गवाली, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 (i), पृष्ठ 1054 तारीख 25 जुलाई, 1959 में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 844, तारीख 14 जुलाई, 1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 1881, तारीख 3.10.1968
2. सा.का.नि. 2010, तारीख 15.12.1970
3. सा.का.नि. 263 (अ) तारीख 27.4.1972
4. सा.का.नि. 579 तारीख 30.05.1974
5. सा.का.नि. 1365 तारीख 18.12.1974
6. सा.का.नि. 343 (अ) तारीख 12.5.1976
7. सा.का.नि. 990 तारीख 28.7.1976
8. सा.का.नि. 871, तारीख 5.8.1980
9. सा.का.नि. 1043, तारीख 23.9.1980
10. सा.का.नि. 394, तारीख 4.4.1981
11. सा.का.नि. 899, तारीख 28.9.1985
12. सा.का.नि. 484 (अ), तारीख 7.3.1986
13. सा.का.नि. 175, तारीख 8.3.1986
14. सा.का.नि. 1187 (अ), तारीख 6.11.1986
15. सा.का.नि. 636, तारीख 27.7.1988
16. सा.का.नि. 915 (अ), तारीख 6.9.1988
17. सा.का.नि. 979 (अ), तारीख 18.12.1990
18. सा.का.नि. 716 (अ), तारीख 4.12.1991
19. सा.का.नि. 378 (अ), तारीख 16.4.1993

43

20. सा.का.नि. 715 (अ), तारीख 3.11.1995
21. सा.का.नि. 150 (अ), तारीख 24.2.1999
22. सा.का.नि. 331 (अ), तारीख 15.4.2011
23. सा.का.नि. 6330 (अ), तारीख 12.7.2018

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2020

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, in rule 5, in sub-rule (1), in clause (f), in the third proviso, clause (iii) shall be omitted.

[F.No. L-11016/1/2020-Jus.-I]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

**Foot Note:** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 844, dated the 14<sup>th</sup> July, 1959 in the Gazette of India, dated the 25<sup>th</sup> July, 1959, in Part II, Section 3(i), page 1054 and subsequently amended by:—

1. G.S.R. 1881, dated 3.10.1968
2. G.S.R. 2010, dated 15.12.1970
3. G.S.R. 263(E), dated 27.4.1972
4. G.S.R. 579, dated 30.5.1974
5. G.S.R. 1365, dated 18.12.1974
6. G.S.R. 343(E), dated 12.5.1976
7. G.S.R. 990, dated 28.7.1978
8. G.S.R. 871, dated 5.8.1980
9. G.S.R. 1043, dated 23.9.1980
10. G.S.R. 394, dated 4.4.1981
11. G.S.R. 899, dated 28.9.1985
12. G.S.R. 484(E), dated 7.3.1986
13. G.S.R. 175, dated 8.3.1986
14. G.S.R. 1187(E), dated 6.11.1986
15. G.S.R. 636, dated 27.7.1988
16. G.S.R. 915 (E), dated 6.9.1988
17. G.S.R. 979(E), dated 18.12.1990
18. G.S.R. 716 (E), dated 4.12.1991
19. G.S.R. 378(E), dated 16.4.1993
20. G.S.R. 715(E), dated 3.11.1995
21. G.S.R. 150(E), dated 24.2.1999
22. G.S.R. 331(E), dated 15.4.2011
23. G.S.R. 330(E), dated 12.07.2018

39  
2021

L-11025/4/2021-Jus.I  
Government of India  
Department of Justice  
Justice-I  
\*\*\*

ANNEXURE-VIII

120

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated: 11<sup>th</sup> March, 2021

To,  
The Registrar (Judicial),  
Orissa High Court,  
Cuttack.


Subject: - Clarification regarding drawal of Composite Transfer Grant on Transfer/Retirement Journey of Hon'ble Chief Justice/Judges of High Courts.

Sir,

I am directed to refer to Registry of Orissa High Court's letter No. 684 III 39/2011 dated 28.1.2021 on the subject mentioned above and to clarify that the Hon'ble Chief Justices/Judges of High Courts are entitled to 80% of the last month's basic pay towards Composite Transfer Grant in case of journey on transfer involving a change of station located at a distance of more than 20 Kms from each other, in accordance with Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure's O.M. No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 (Annexure dated 10.07.2017).

2. In cases of transfer to Stations which are at a distance of less than 20 Kms from the old station and of transfer within the same city, one third of the composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved.

Yours faithfully,



(Manish Kumar)

Under Secretary to Government of India  
Tel. No. 23782465.

Copy to:-

1. The Chief Secretaries of all States, Govt. of NCT of Delhi, UT of Chandigarh, UT of J&K and UT of Ladakh.
2. The Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. The Registrar General, all High Courts.
4. The Accountant General, All States/UT of Chandigarh, J&K and Ladakh.
5. The Pay & Account Officer, Supreme Court of India, New Delhi.
6. The Pay & Account Officer No. XIX, Govt. of NCT of Delhi, Fire Station Building, Shankar Road, New Delhi.
7. Guard Files/ Spare copies.
8. NIC, DoJ for uploading on website.

Authenticated Copy

S. P. Singh Baghel

Prof. S. P. SINGH BAGHEL  
Minister of State  
Ministry of Law & Justice

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-के.-18032021-225389  
CG-DL-E-18032021-225989

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (3)  
PART II—Section 3—Sub-section (3)  
शासिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942  
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

सा.का.नि. 200(अ).— केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश विधम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश विधम, 1959 के नियम 3ख में,—  
(क) उपनियम (1) में "पञ्जीस ह्वार रुपये" शब्दों के स्थान पर "सत्तर ह्वार रुपये" शब्द रखे जाएँ;  
(घ) उपनियम (2) "बीसह्व ह्वार रुपये" शब्दों के स्थान पर "उन्नातीस ह्वार रुपये" शब्द रखे जाएँ।

[सा.सं.एल-11017/1/2020-न्या. 1]

नीरज कुमार बघेली, संयुक्त सचिव



टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 1161 (पृष्ठ संख्या सं. 15.6.58-भा. -1) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 935 तारीख 4 अगस्त, 1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

1. सा.का.नि. सं. 1365 तारीख 18 नवंबर, 1974
2. सा.का.नि. सं. 634 तारीख 22 अप्रैल, 1976
3. सा.का.नि. सं. 854 तारीख 1 अगस्त, 1980
4. सा.का.नि. सं. 1176(क) तारीख 4 नवंबर, 1986
5. सा.का.नि. सं. 680(क) तारीख 12 नवंबर, 1991
6. सा.का.नि. सं. 381(क) तारीख 20 अप्रैल, 1993
7. सा.का.नि. सं. 444(क) तारीख 10 मई, 1995
8. सा.का.नि. सं. 717(क) तारीख 3 नवंबर, 1995
9. सा.का.नि. सं. 718(क) तारीख 3 नवंबर, 1995
10. सा.का.नि. सं. 149(क) तारीख 24 फरवरी, 1999
11. सा.का.नि. सं. 393(क) तारीख 25 मई, 2001
12. सा.का.नि. सं. 757(क) तारीख 4 अक्टूबर, 2001
13. सा.का.नि. सं. 110(क) तारीख 5 फरवरी, 2003
14. सा.का.नि. सं. 202(क) तारीख 15 मार्च, 2004
15. सा.का.नि. सं. 162(क) तारीख 11 मार्च, 2006
16. सा.का.नि. सं. 602(क) तारीख 29 सितंबर, 2006।

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

**G.S.R.200(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely: -

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 3B -
  - (a) in sub-rule (1), for the words "twenty five thousand rupees" the words "seventy thousand rupees" shall be substituted;
  - (b) in sub-rule (2), for the words "fourteen thousand rupees" the words "thirty nine thousand rupees" shall be substituted.

[F.No. L-11017/1/2020-Jus.]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

120  
Authenticated Copy

Prof. S. P. SINGH BAGHEL  
Minister of State  
Ministry of Law & Justice

Note- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 935, dated the 4th August, 1959 page 1161 [Ministry of Home Affairs No. 15.6.58-Judl-I] and subsequently amended by:-

1. G.S.R. 1366, dated the 18th December, 1974
2. G.S.R. 634 dated the 22nd April, 1976
3. G.S.R. 854 dated the 1st August, 1980
4. G.S.R. 1176 (E) dated the 4th November, 1986
5. G.S.R. 680 (E) dated the 12th November, 1991
6. G.S.R. 381(E) dated the 20th April, 1993
7. G.S.R. 444 (E) dated the 10th May, 1995
8. G.S.R. 717 (E) dated the 3rd November, 1995
9. G.S.R. 718 (E) dated the 3rd November, 1995
10. G.S.R. 149 (E) dated the 24th February, 1999
11. G.S.R. 393 (E) dated the 25th May, 2001
12. G.S.R. 757(E) dated the 4th October, 2001
13. G.S.R. 110 (E) dated the 5th February, 2003
14. G.S.R. 202(E) dated the 15th March, 2004
15. G.S.R. 162 (E) dated the 11th March, 2006
16. G.S.R. 602 (E) dated the 29th September, 2006

1234

Authenticated Copy

*S. P. Singh Baghel*

Prof. S. P. SINGH BAGHEL  
Minister of State  
Ministry of Law & Justice

41/201

ANNEXURE-X

124

Authenticated Copy

हस्ताक्षर

Prof. S. P. SINGH BAGHEL

Minister of State  
Ministry of Law & Justice  
REGD. No. D. L.-33004/99

वि.सं.डी.एल.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228742  
CG-DL-E-04082021-228742

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 432] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943  
No. 432] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SHRAVANA 13, 1943

---

विधि और न्याय मंत्रालय  
(न्याय विभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 531(अ).—केंद्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 32 में :-

(क) उपनियम (1) में, "1500 निःशुल्क कॉल प्रतिमाह (टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली निःशुल्क कॉलों के अलावा)" शब्दों के स्थान पर, "4200/- रुपए प्रतिमाह+ यथालागू कर से अधिक आवासीय टेलीफोन काल प्रभारों या मोबाइल फोन या ब्राडबैंड या मोबाइल डाटा या डाटा कार्ड की प्रतिपूर्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, "1500 निःशुल्क कॉल प्रतिमाह (टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिमाह दी जाने वाली निःशुल्क कॉलों के अलावा)" शब्दों के स्थान पर, "4200/- रुपए प्रतिमाह+ यथालागू कर से अधिक आवासीय

टेलीफोन काल प्रभारों या मोबाइल फोन या ब्राडबैंड या मोबाइल डाटा या डाटा कार्ड की प्रतिपूर्ति" शब्द रहे जाएंगे".

[फा. सं. एल-11017/2/2020-न्याय.1]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 935, तारीख 4 अगस्त, 1959, पृष्ठ 1161 (गृह मंत्रालय संख्या 15658-न्याय.1 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ति रूप से निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गये :-

1. सा.का.नि. 1366, तारीख 18 दिसंबर, 1974;
2. सा.का.नि. 634, तारीख 22 अप्रैल, 1976;
3. सा.का.नि. 854, तारीख 1 अगस्त, 1980;
4. सा.का.नि. 1176(अ), तारीख 4 नवंबर, 1986;
5. सा.का.नि. 680(अ), तारीख 12 नवंबर, 1991;
6. सा.का.नि. 381(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1993;
7. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 10 मई, 1995;
8. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 3 नवंबर, 1995;
9. सा.का.नि. 718(अ), तारीख 3 नवंबर, 1995;
10. सा.का.नि. 149(अ), तारीख 24 फरवरी, 1999;
11. सा.का.नि. 393(अ), तारीख 25 मई, 2001;
12. सा.का.नि. 757(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2001;
13. सा.का.नि. 110(अ), तारीख 5 फरवरी, 2003;
14. सा.का.नि. 202(अ), तारीख 15 मार्च, 2004;
15. सा.का.नि. 162(अ), तारीख 11 मार्च, 2006;
16. सा.का.नि. 602(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006;
17. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 18 मार्च, 2021।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2021

**G.S.R. 531(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (f) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 3B,—

(a) in sub-rule (1), for the words "the number of free calls to the extent of 1500 per month (over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities)" the words

"reimbursement of telephone call charges of residential telephone or mobile phone or broadband or mobile data or data card not exceeding to Rs.4200/- per month + taxes as applicable" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words "the number of calls to the extent of 1500 per free calls to the extent of 1,500 per month (over and above the number of free calls per month allowed by the telephone authorities)" the words "reimbursement of telephone call charges of residential telephone or mobile phone or broadband or mobile data or data card not exceeding to Rs.4200/- per month + taxes as applicable" shall be substituted.

[F. No. L-11017/2/2020-Jus.I]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

**Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 935, dated the 4<sup>th</sup> August, 1959 page 1161 (Ministry of Home Affairs No. 15.6.58-Judl-I and subsequently amend by:-

1. G.S.R. 1366, dated the 18<sup>th</sup> December, 1974;
2. G.S.R. 634, dated the 22<sup>nd</sup> April, 1976;
3. G.S.R. 854, dated the 1<sup>st</sup> August, 1980;
4. G.S.R. 1176(E), dated the 4<sup>th</sup> November, 1986;
5. G.S.R. 680(E), dated the 12<sup>th</sup> November, 1991;
6. G.S.R. 381(E), dated the 20<sup>th</sup> April, 1993;
7. G.S.R. 444(E), dated the 10<sup>th</sup> May, 1995;
8. G.S.R. 717(E), dated the 3<sup>rd</sup> November, 1995;
9. G.S.R. 718(E), dated the 3<sup>rd</sup> November, 1995;
10. G.S.R. 149(E), dated the 24<sup>th</sup> February, 1999;
11. G.S.R. 393(E), dated the 25<sup>th</sup> May, 2021;
12. G.S.R. 757(E), dated the 4<sup>th</sup> October, 2001;
13. G.S.R. 110(E), dated the 5<sup>th</sup> February, 2003;
14. G.S.R. 202(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2004;
15. G.S.R. 162(E), dated the 11<sup>th</sup> March, 2006;
16. G.S.R. 602(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2006;
17. G.S.R. 200(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2021.

Authenticated Copy  
  
 Prof. B. P. SINGH BAGHEL  
 Minister of State  
 Ministry of Law & Justice

L-19016/01/2018-Jus.  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Department of Justice  
\*\*\*

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated: 03<sup>rd</sup> August, 2021

To,

1. Accountants General,  
All States and U.T. of Chandigarh.
2. Pay and Accounts Officer,  
Supreme Court of India, New Delhi.
3. Pay and Account Officer, No. XIV,  
Government of NCT of Delhi,  
Fire Station Building, Shankar Road, New Delhi.
4. Directorate of Pension & Provident Fund,  
Gujarat State,  
Block No. 17, Dr. Jivaraj Mehta Complex,  
Old Sachivalaya, Gandhinagar.

Subject:- Grant of Dearness Relief to the retired Judges of Supreme Court/High Courts and family pensioners of such Judges- revised rates effective from 01.07.2021.

Sir,

I am directed to refer to this department's letter of even number dated 8<sup>th</sup> November, 2019 on the above subject and to say that consequent upon grant of further Dearness Relief (DR) on pension/family pension to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies vide Department of Pension & Pensioners Welfare's O.M. No. 42/07/2021-P&PW(D) dated 22<sup>nd</sup> July, 2021 (Copy enclosed), it has been decided that retired Judges of Supreme Court/High Courts and family pensioners of such Judges would be entitled to Dearness Relief on pension/family pension at the rate of 28% with effect from 1<sup>st</sup> July, 2021. The increase subsumes the additional instalments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Relief shall remain at 17% of basic pension/family pension for the period from 01.01.2020 till 30.06.2021.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
3. The provision governing grant of Dearness Relief to pensioners such as regulation of dearness relief during employment/re-employment, regulation of dearness relief where more than one pension is drawn etc., will remain unchanged.

4. Other provisions contained in this Department's letter No. L-19016/3/97 Jus. dated 13<sup>th</sup> January, 1999 will remain unchanged.

5. Accountant Generals/Pay and Accounts Officers are requested to arrange payment of dearness relief to the pensioners on the basis of the aforesaid instructions as per the procedure adopted by the Department of Pension & Pensioners' Welfare without any further delay.

6. This issues with the concurrence of Joint Secretary and Financial Adviser (Law) vide note No. 16 dated 29.7.2021 (e-file no. 3834) and approval of Secretary (Justice) vide note no. 20 dated 30.7.2021.

Yours faithfully,




(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

Tel.: 23782465

Copy to:-

1. Chief Secretary, All States/Govt. of NCT of Delhi and Chandigarh Administration.
2. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. Registrar Generals, All High Courts.
4. O/o Comptroller and Auditor General of India, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
5. Joint Secretary (Pers.), Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
6. Joint Secretary, Department of Pension & Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-3.
7. Budget and Accounts Section, M/o Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
9. Pay and Accounts Officer, Central Pension Accounting Office, Trikot-II, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066.
10. Director, NIC- with the request to get the circular uploaded in the website of this Department.
11. Guard File.



(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

No. 42/07/2021-P&PW(D)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Pension & Pensioners' Welfare


3<sup>rd</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan,  
Khan Market,  
New Delhi - 110003  
July 22, 2021

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Revised rates of Dearness Relief to Central Government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01.07.2021**

The undersigned is directed to refer to Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 1/1/2020-E-II(B), dated 23.04.2020, vide which instalments of Dearness Relief to pensioners/family pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021, were frozen and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of 17% to 28% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) with effect from 1<sup>st</sup> July 2021. The increase subsumes the additional instalments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Relief, earlier determined vide this Department's OM No. 42/04/2019-P&PW(D) dated 21.10.2019, shall remain at 17% of basic pension/family pension for the period from 01.01.2020 till 30.06.2021.

2. These rates of Dearness Relief will be applicable to:
  - i. Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Government absorbed pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
  - ii. The Armed Forces pensioners/family pensioners and Civilian pensioners/ family pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
  - iii. All India Services pensioners/family pensioners.
  - iv. Railway pensioners/family pensioners.
  - v. Pensioners who are in receipt of provisional pension.
  - vi. The Burma Civilian pensioners/family pensioners and displaced pensioners/family pensioners from Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.
3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
4. Other provisions governing grant of Dearness Relief in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance

  
22/7/2021



with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G), dated 2.7.1999, as amended from time to time. The provisions relating to regulation of Dearness Relief where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.


6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of Dearness Relief payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to pensioners/family pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II, dated 23/04/1981, of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21<sup>st</sup> May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

9. These issues in pursuance of Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1/2020-E. II(B) dated 20<sup>th</sup> July, 2021.

10. Hindi version will follow.



(Sanjiv Narain Mathur) 22/7/2021  
Joint Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs /CPPCs of all authorized Pension Disbursing Banks.
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for information.

57

L-11025/1/2018-Jus.  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Department of Justice  
\*\*\*

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated: 3<sup>rd</sup> August, 2021

To,

✓ The Chief Secretaries,  
All State Govts./UT of Delhi and Chandigarh.

Subject:- Grant of Dearness Allowance (DA) to the Judges of Supreme Court and High Courts- Revised Rates effective from 1.7.2021.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 8<sup>th</sup> November, 2019 on the above subject and to say that Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide O.M. No. 1/1/2020-E-II (B) dated 20<sup>th</sup> July, 2021 (copy enclosed) has revised the rates of Dearness Allowance (D.A.) payable to Central Government employees and to the members of All India Services. The Dearness Allowance has been revised from 17% to 28% w.e.f. 01.07.2021. The increase subsumes the additional instalments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Allowance for the period from 01.01.2020 till 30.06.2021 shall remain at 17%.

2. By virtue of the provisions contained in Rule 2 of High Court Judges Rules, 1956 and Rule 6 of the Supreme Court Judges Rules, 1959, the Judges of the High Courts and Supreme Court are also entitled to the revised rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.07.2021 at the same rates (28%) as are admissible to the members of All India Service. The admissibility of Dearness Allowance would be subject to other conditions as stipulated by Department of expenditure's above mentioned O.M.

3. This issues with the concurrence of Joint Secretary and Financial Adviser (Law) vide note No. 14 dated 29.7.2021 (e-file no. 3831) and approval of Secretary (Justice) vide note No. 18 dated 31.7.2021.


Yours faithfully,

*Manish Kumar*

(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

Tel.: 23782465



Copy forwarded for information and necessary action to:-

✓ 1. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.

58

7/21-98  
5/21  
3/20  
5/21

2. Registrars General, All High Courts.
3. Pay and Accounts Office, Supreme Court of India, New Delhi.
4. Pay and Accounts Office, No. XIV, Fire Station Building, Shanker Road, New Delhi.
5. Accountants General of all States.
6. Office of C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
7. Central Administrative Tribunal, 61/35, Copernicus Marg, New Delhi.
8. Registrar, Krishna Water Disputes Tribunal, Trikoot-I, 3<sup>rd</sup> Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066.
9. Budget & Accounts Section, Ministry of Law & Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Addl. Secretary (Pers.), Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
11. Director, NIC- with the request to get the circular uploaded in the website of this Department.
12. Guard File.

(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

59

No. 1/1/2020-E-II (B)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated the 20<sup>th</sup> July, 2021

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Revised rates of Dearness Allowance to Central Government employees w.e.f. 01.07.2021.**

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/1/2020-E-II (B) dated 23.04.2020 vide which instalments of Dearness Allowance to Central Government employees due from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021, were frozen and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 17% to 28% of the basic pay with effect from 1<sup>st</sup> July, 2021. The increase subsumes the additional instalments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Allowance for the period from 01.01.2020 till 30.06.2021 shall remain at 17%.

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7<sup>th</sup> CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
6. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

*Annie George Mathew*

(Annie George Mathew)  
Additional Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

L-11025/1/2018-Jus.  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Department of Justice

\*\*\*

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated: 3<sup>rd</sup> November, 2021

To,

The Chief Secretaries,  
All State Govts./UT of Delhi and Chandigarh.

Subject:- Grant of Dearness Allowance (DA) to the Judges of Supreme Court and High Courts- Revised Rates effective from 1.7.2021.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 3<sup>rd</sup> August, 2021 on the above subject and to say that Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide O.M. No. 1/4/2021-E-II (B) dated 25<sup>th</sup> October, 2021 (copy enclosed) has revised the rates of Dearness Allowance (D.A.) payable to Central Government employees and to the members of All India Services. The Dearness Allowance has been revised from 28% to 31% of the basic pay w.e.f. 01.07.2021. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

2. By virtue of the provisions contained in Rule 2 of High Court Judges Rules, 1956 and Rule 6 of the Supreme Court Judges Rules, 1959, the Judges of the High Courts and Supreme Court are also entitled to the revised rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.07.2021 at the same rates (31%) as are admissible to the members of All India Service. The admissibility of Dearness Allowance would be subject to other conditions as stipulated by Department of expenditure's above mentioned O.M.

3. This issues with the concurrence of Joint Secretary and Financial Adviser (Law) vide note No. 36 dated 01.11.2021 (e-file no. 3831) and approval of Secretary (Justice) vide note No. 39 dated 02.11.2021.

Yours faithfully,




(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
2. Registrars General, All High Courts.
3. Pay and Accounts Office, Supreme Court of India, New Delhi.
4. Pay and Accounts Office, No. XIV, Fire Station Building, Shanker Road, New Delhi.
5. Accountants General of all States.
6. Office of C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
7. Central Administrative Tribunal, 61/35, Copernicus Marg, New Delhi.
8. Registrar, Krishna Water Disputes Tribunal, Trikoot-I, 3<sup>rd</sup> Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066.
9. Budget & Accounts Section, Ministry of Law & Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Addl. Secretary (Pers.), Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
11. Director, NIC- with the request to get the circular uploaded in the website of this Department.
12. Guard File.



(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

No. 1/4/2021-E-II (B)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated the 25<sup>th</sup> October, 2021.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Revision of Rate of Dearness Allowance (DA) to Central Government Employees due from 01.07.2021**

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/1/2020-E-II (B) dated 20<sup>th</sup> July, 2021 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 28% to 31% of the Basic Pay with effect from 1<sup>st</sup> July, 2021.

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7<sup>th</sup> CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
6. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

  
(Nirmala Dev)  
Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

L-19016/01/2018-Jus.  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Department of Justice  
\*\*\*

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi : Dated: 5<sup>th</sup> November, 2021

To,

1. Accountants General,  
All States and U.T. of Chandigarh.
2. Pay and Accounts Officer,  
Supreme Court of India, New Delhi.
3. Pay and Account Officer, No. XIV,  
Government of NCT of Delhi,  
Fire Station Building, Shankar Road, New Delhi.
4. Directorate of Pension & Provident Fund,  
Gujarat State,  
Block No. 17, Dr. Jivaraj Mehta Complex,  
Old Sachivalaya, Gandhinagar.



Subject:- Grant of Dearness Relief to the retired Judges of Supreme Court/High Courts and family pensioners of such Judges- revised rates effective from 01.07.2021.

Sir,

I am directed to refer to this department's letter of even number dated 3<sup>rd</sup> August, 2021 on the above subject and to say that consequent upon grant of further Dearness Relief (DR) on pension/family pension to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies vide Department of Pension & Pensioners Welfare's O.M. No. 42/7/2021- P&PW(D) e- 7330 dated 27.10.2021 (Copy enclosed), it has been decided that retired Judges of Supreme Court/High Courts and family pensioners of such Judges would be entitled to Dearness Relief on pension/family pension at the rate of 31% of the basic pension/family pension (including additional pension/ family pension) with effect from 1<sup>st</sup> July, 2021.

2. The payment on account of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded to the next higher rupee.

3. The provision governing grant of Dearness Relief to pensioners such as regulation of dearness relief during employment/re-employment, regulation of dearness relief where more than one pension is drawn etc., will remain unchanged.

4. Other provisions contained in this Department's letter No. L-19016/3/97-Jus. dated 13<sup>th</sup> January, 1999 will remain unchanged.

600140682


Antel-



5. Accountant Generals/Pay and Accounts Officers are requested to arrange payment of dearness relief to the pensioners on the basis of the aforesaid instructions as per the procedure adopted by the Department of Pension & Pensioners' Welfare without any further delay.

6. This issues with the concurrence of Joint Secretary and Financial Advisor (Law) vide Note No. 38 dated 01.11.2021 (e-file no. 3834) and approval of Secretary (Justice) vide Note No. 41 dated 02.11.2021.

Yours faithfully,




(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

Copy to:-

1. Chief Secretary, All States/Govt. of NCT of Delhi and Chandigarh Administration.
2. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. Registrar Generals, All High Courts.
4. O/o Comptroller and Auditor General of India, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
5. Joint Secretary (Pers.), Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
6. Joint Secretary, Department of Pension & Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-3.
7. Budget and Accounts Section, M/o Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
9. Pay and Accounts Officer, Central Pension Accounting Office, Trikot-II, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066.
10. Director, NIC- with the request to get the circular uploaded in the website of this Department.
11. Guard File.



(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.



सत्यमेव जयते

File No. No. 42/7/2021-P&PW(D) e-7330

भारत सरकार / Government of India

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय/ Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/Department of Pension and Pensioners' Welfare

\*\*\*

8 वीं मंजिल, बी-विंग, 8<sup>th</sup> Floor, B-Wing,  
जनपथ भवन, जनपथ, Janpath Bhawan, Janpath,  
नई दिल्ली -110001 /New Delhi-110001

दिनांक/Dated: 27.10.2021

### OFFICE MEMORANDUM

**Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2021-reg**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even no. dated 22.07.2021 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of 28% to 31% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01.07.2021.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-
  - i. Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
  - ii. The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners, Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
  - iii. All India Service Pensioners/Family Pensioners.
  - iv. Railway Pensioners/family pensioners.
  - v. Pensioners who are in receipt of provisional pension.
  - vi. The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.
3. The payment on account of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded to the next higher rupee.
4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

....contd/-

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.
6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.
7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21<sup>st</sup> May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalized Banks.
8. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued under Article 148(5) of the Constitution and after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.
9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/4/2020-E.II(B) dated 25.10.2021.

† Hindi version will follow.



(Naresh Bhardwaj)  
Deputy Secretary to the Government of India  
Tele: 011-23350020

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

L-11025/1/2018-Jus.  
Government of India  
Ministry of Law and Justice  
Department of Justice  
\*\*\*

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated: 12<sup>th</sup> April, 2022

To,

The Chief Secretaries,  
All State Govts./UT of Delhi and Chandigarh.

Subject:- Grant of Dearness Allowance (DA) to the Judges of Supreme  
Court and High Courts- Revised Rates effective from 1.1.2022.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 3<sup>rd</sup> November, 2021 on the above subject and to say that Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide O.M. No. 1/2/2022-E-II (B) dated 31<sup>st</sup> March, 2022 (copy enclosed) has revised the rates of Dearness Allowance (D.A.) payable to Central Government employees and to the members of All India Services. The Dearness Allowance has been revised from 31% to 34% of the basic pay w.e.f. 01.01.2022. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.


2. By virtue of the provisions contained in Rule 2 of High Court Judges Rules, 1956 and Rule 6 of the Supreme Court Judges Rules, 1959, the Judges of the High Courts and Supreme Court are also entitled to the revised rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.01.2022 at the same rates (34%) as are admissible to the members of All India Service. The admissibility of Dearness Allowance would be subject to other conditions as stipulated by Department of expenditure's above mentioned O.M.

*o/c*



3. This issues with the concurrence of Joint Secretary and Financial Adviser (Law) vide note No. 58 dated 11.4.2022 (e-file no.3831) and approval of Secretary (Justice) vide note No. 61 dated 11.04.2022.

Yours faithfully,




(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
2. Registrars General, All High Courts.
3. Pay and Accounts Office, Supreme Court of India, New Delhi.
4. Reserve Bank of India Department of Government & Bank Accounts Central Office, 4<sup>th</sup> Floor, Byculla Office Building, Opp. Mumbai Central Station, Byculla, Mumbai- 400008.
5. Chairman to all authorized Bank's Head Offices/Regional office of the State Government.
6. Pay and Accounts Office, No. XIV, Fire Station Building, Shanker Road, New Delhi.
7. Accountants General of all States.
8. Office of C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
9. Central Administrative Tribunal, 61/35, Copernicus Marg, New Delhi.
10. Registrar, Krishna Water Disputes Tribunal, Trikoot-I, 3<sup>rd</sup> Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066.
11. Budget & Accounts Section, Ministry of Law & Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
12. Addl. Secretary (Pers.), Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
13. Director, NIC- with the request to get the circular uploaded in the website of this Department.
14. Guard File.

3/22-9.8  
13/4/22



(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

No. 1/2/2022-E-II (B)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
\*\*\*\*\*


North Block, New Delhi  
Dated the 31<sup>st</sup> March, 2022.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 01.01.2022.**

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/4/2021-E-II (B) dated 25<sup>th</sup> October, 2021 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 31% to 34% of the Basic Pay with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022.

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7<sup>th</sup> CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2022.
6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.



(Nirmala Dev)  
Director

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

Jaisalmer House, Man Singh Road,  
New Delhi Dated: 25<sup>th</sup> April, 2022

To,

1. Accountants General,  
All States and U.T. of Chandigarh.
2. Pay and Accounts Officer,  
Supreme Court of India, New Delhi.
3. Pay and Account Officer, No. XIV,  
Government of NCT of Delhi,  
Fire Station Building, Shankar Road, New Delhi.
4. Directorate of Pension & Provident Fund,  
Gujarat State,  
Block No. 17, Dr. Jivaraj Mehta Complex,  
Old Sachivalaya, Gandhinagar.

Subject:- Grant of Dearness Relief to the retired Judges of Supreme Court/High Courts and family pensioners of such Judges- revised rates effective from 01.01.2022.


Sir,

I am directed to refer to this department's letter of even number dated 5<sup>th</sup> November, 2021 on the above subject and to say that consequent upon grant of further Dearness Relief (DR) on pension/family pension to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies vide Department of Pension & Pensioners Welfare's O.M. No. 42/7/2022-P&PW(D) dated 05.4.2022 (Copy enclosed), it has been decided that retired Judges of Supreme Court/High Courts and family pensioners of such Judges would be entitled to Dearness Relief on pension/family pension at the rate of 34% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) with effect from 1<sup>st</sup> January, 2022.

2. The payment on account of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded to the next higher rupee.
3. The provision governing grant of Dearness Relief to pensioners such as regulation of dearness relief during employment/re-employment, regulation of dearness relief where more than one pension is drawn etc., will remain unchanged.
4. Other provisions contained in this Department's letter No. L-19016/3/97-Jus. dated 13<sup>th</sup> January, 1999 will remain unchanged.
5. Accountant Generals/Pay and Accounts Officers are requested to arrange payment of dearness relief to the pensioners on the basis of the aforesaid instructions as per the procedure adopted by the Department of Pension & Pensioners' Welfare without any further delay.

6. This issues with the concurrence of Joint Secretary and Financial Advisor (Law) vide Note No. 69 dated 20.4.2022 (e-file no. 3834) and approval of Secretary (Justice) vide Note No. 72 dated 22.4.2022.

Yours faithfully,




(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.

Copy to:-

1. Chief Secretary, All States/Govt. of NCT of Delhi and Chandigarh Administration.
2. Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi.
3. Registrar Generals, All High Courts.
4. O/o Comptroller and Auditor General of India, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
5. Joint Secretary (Pers.), Department of Expenditure, North Block, New Delhi.
6. Joint Secretary, Department of Pension & Pensioners' Welfare, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-3.
7. Reserve Bank of India Department of Government & Bank Accounts Central Office, 4<sup>th</sup> Floor, Byculla Office Building, Opp. Mumbai Central Station, Byculla, Mumbai- 400008.
8. Chairman to all authorized Bank's Head Offices/Regional office of the State Government.
9. Budget and Accounts Section, M/o Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
11. Pay and Accounts Officer, Central Pension Accounting Office, Trikoot-II, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi-110066.
12. Director, NIC- with the request to get the circular uploaded in the website of this Department.
13. Guard File.



(Manish Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India.



No. 42/07/2022-P&PW(D)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3<sup>rd</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan,  
Khan Market, New Delhi - 110003  
Date:- 5<sup>th</sup> April, 2022

OFFICE MEMORANDUM


**Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2022.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/7/2021-P&PW(D) dated 27.10.2021 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government pensioners/family pensioners shall be enhanced from the existing rate of 31% to 34% w.e.f 01.01.2022.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-
  - i. Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol. II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
  - ii. The Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
  - iii. All India Service Pensioners
  - iv. Railway Pensioners/family pensioners
  - v. Pensioners who are in receipt of provisional pension
  - vi. The Burma Civilian pensioners/family pensioners and pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.
3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.
6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.
7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of relief to pensioners etc. on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21<sup>st</sup> May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.
8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.
9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/2/2022-E.II(B) dated 31.03.2022.

Hindi version will follow.



(Charanjit Taneja)

Under Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.